


रजिस्ट्री सं० बी० (बी०)-72



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 1979/आश्विन 18, 1901
No. 413] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 1979/ASVINA 18, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 578(अ).—संख्या-ई(सी) ओ, 1977/ए एम (136).—आयात-
निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण)

713 GI/79

(1021)

आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश की रचना करती है :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 48वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग “क” अनुसूची-1 में क्रम संख्या-33 (16) के सामने प्रदर्शित वर्तमान प्रविष्टि हटा दी जाएगी।

[मिसिल संख्या-6/68/79-ई1]

सी. वेङ्कटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 10th October, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 578(E)/No. E(C)O 1977/AM(136).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Forty-eighth Amendment Order, 1979.
2. In Part ‘A’ Schedule I, to the Exports (Control) Order, 1977, the existing entry appearing against S. No. 33(16) shall be deleted.

[File No. 6/68/79-EI]

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports and Exports